

## **सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 07-07-2021**

कल दिनांक 08-07-2021 को जनपद सिद्धार्थनगर के कुल 14 विकास खण्डों में होने वाले ब्लाक प्रमुख पद के नामांकन हेतु सुदृढ़ पुलिस प्रबंध किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक -01, क्षेत्राधिकारी- 06 , प्रभारी निरीक्षक -22 ,उप निरीक्षक- 78, मुख्य आरक्षी /आरक्षी -320 व महिला आरक्षी -58 लगाए गए हैं। प्रत्येक ब्लाक परिसर में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की जा रही है, प्रत्याशी व अन्य व्यक्तियों के वाहनों को नामांकन स्थल से 200 मीटर दूरी पर रोका जाएगा। ब्लाक परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से केवल एक प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक व अनुमोदक सहित कुल 05 व्यक्ति जा सकेंगे। दो प्रत्याशी के आने पर एक प्रत्याशी के नामांकन के पश्चात ही दूसरे प्रत्याशी को नामांकन की अनुमति दी जाएगी, नामांकन स्थल पर प्रवेश के दौरान किसी प्रकार का ज्वलशील पदार्थ व मोबाइल पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों की डीएफएमडी व एचएचएमडी से चेकिंग की जाएगी, कोरोना कर्फ्यू का लागू होने के कारण बिना कोरोना प्रोटोकॉल में अनुमन्य कारणों से किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

### **प्रेस नोट दिनांक 07-07-2021**

आज दिनांक 07-07-2021 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मीडिया सोशल मीडिया सेल कार्यालय पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा स्वर्गीय श्री अंकित श्रीवास्तव (जिला रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के) जो कोरोना संक्रमित होने के कारण हम लोगों के बीच नहीं रहें, उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय योगदान रहा एवं पुलिस के साथ मधुर संबंध रहा उनके असामयिक निधन पर जनपद की पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई एवं उनकी कमी को काफी दुखद महसूस किया जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। शोक संतप्त परिवार को जनपदीय पुलिस सिद्धार्थनगर की तरफ से **₹ 50,000/-** सहयोग के रूप में श्रीमती अलंकृता श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय श्री अंकित श्रीवास्तव निवासी ग्राम असिधवा मिश्रौलिया थाना जनपद सिद्धार्थनगर को दिया गया।

### **प्रेस नोट दिनांक 07-07-2021**

#### **घर में चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व श्रीकृष्ण देव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना को0 सि0नगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही –

आज दिनांक 07/07/2021 को मैं उ0नि0 मय हमराही हे0का0 अभयनन्दन सिंह के साथ थाना से रवाना होकर मु0अ0सं0- 143/2021 धारा 457/380 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन पाण्डेय पुत्र काली प्रसाद सा0 खजुरिया टोला नगवा थाना व जिला सि0नगर की तलाश में सोहास स्टैण्ड पहुंचा जहां पर वादी मुकदमा मिला मुखबिर खास ने बताया कि आपके मुकदमे की अभियुक्त चन्दन जमुआर नाला पुल धौरीकुइया पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके मैं उ0नि0 मय हमराह हे0का0 व वादी मुकदमा व मुखबिर के जमुआर नाला पुल धौरीकुइया के पहले पहुंचा कि मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन वही है कि जैसे ही उसकी तरफ मैं उ0नि0 मय हमराही बढे कि व्यक्ति पीछे मुडकर तेज कदमों से चलने लगा कि हमराही की मदद से घेर-घार कर 10-20 कदम जाते जाते पकड लिया गया पकडे गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम चन्दन बताया कि अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से चोरीशुदा मोबाइल व चोरीशुदा 2000 रुपये नगद बरामद किया गया व कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त को कब्जा पुलिस में लिया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता.....**

1- चन्दन पाण्डेय पुत्र काली प्रसाद सा0 खजुरिया टोला नगवा थाना व जिला सि0नगर

### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण .....**

1-उ0नि0 श्री बीरबहादुर यादव थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

2-हे0का0 अभयनन्दन यादव थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

### **सराहनीय कार्य दिनांक 07.07.2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-07-07-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 761 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 290 वाहनों का चालान कर ₹ 2,64,500 /-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

### **सराहनीय कार्य दिनांक 07.07.2021**

### **अधि0/कर्मचारीगण की, की गई मीटिंग थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 06.07.2021 को की गई अपराध गोष्ठी में दिये गये आदेश निर्देशों को महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु , जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना परिसर कपिलवस्तु में मीटिंग कर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी में दिये गये आदेशों निर्देशों को सभी अधि0/कर्मचारीगण को अवगत कराया गया । आयोजित मीटिंग में सभी अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।